

This file has been cleaned of potential threats.

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.



प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान

Institute for Plasma Research

भाट, इन्दिरा पुल के निकट, गांधीनगर – 382 428 (भारत)

Bhat, Near Indira Bridge, Gandhinagar – 382 428 (India)

Web: www.ipr.res.in



विज्ञापन सं.

02/2021

प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है जो बुनियादी प्लाज़्मा भौतिकी, चुंबकीय परिसीमित संलयन और औद्योगिक एवं सामाजिक प्लाज़्मा के अनुप्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के प्रति समर्पित है। आईपीआर, भाट गाँव, गांधीनगर (गुजरात) में स्थित है और इसकी प्रयोगशालाओं के विस्तार "औद्योगिक प्लाज़्मा प्रौद्योगिकी हेतु सुविधा केंद्र (एफसीआईपीटी)", जीआईडीसी, गांधीनगर और "प्लाज़्मा भौतिकी-केंद्र" (सीपीपी-आईपीआर) नामित केंद्र गुवाहाटी, असम में है।

अत्यधिक प्रेरित और परिणाम उन्मुख उम्मीदवारों से निम्नलिखित अस्थायी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रम. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	अनिवार्य योग्यता
01	जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ)	(1) एक	मेकेनिकल इंजिनियरिंग / मेटलर्जी / मेटलर्जिकल इंजिनियरिंग / मटिरियल टेक्नोलोजी विषय में GATE स्कोर के साथ B.E./B.Tech. या CSIR-UGC NET/GATE संबंधित मान्य स्कोर के साथ भौतिकी / मटिरियल साइंस में एम.एससी।

1. कार्य की प्रकृति:

उम्मीदवार को लक्षण वर्णन अध्ययन, प्रयोगों, प्रणाली संशोधनों, नियमित प्रयोगशाला रखरखाव और परियोजना से संबंधित अन्य कार्यों में सहायता करने की आवश्यकता होगी।

2. आयु सीमा: 01/03/2021 को 28 वर्ष से अधिक नहीं।

3. कार्यकाल: जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) को एक वर्ष की अवधि के लिए या परियोजना की सह-समाप्ति पर जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगा।

4. पारिश्रमिक: ₹31,000/- प्रति माह + 24% HRA प्रति माह (समेकित)।

5. चयन प्रक्रिया:

विज्ञापन के जवाब में प्राप्त आवेदनों की छानबीन की जाएगी और केवल आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि जैसे मानदंडों के आधार पर वैध आवेदनों से चुने गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अधिकारी बिना किसी कारण बताए, साक्षात्कार के लिए आवेदक को नहीं बुलाने के लिए सभी अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

1. निर्धारित आवश्यक योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल उसी का अधिकार होने पर उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र नहीं होंगे।
2. आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में, संस्थान एक या एक से अधिक निम्नलिखित विधि द्वारा उचित संख्या में साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए शॉर्टलिस्टिंग मानदंड अपनाएगा।
 - i) योग्यता परीक्षा (बी.ई./बी.टेक./एम.एस.सी.) में प्राप्त अंकों का प्रतिशत।
 - ii) CSIR-UGC NET/GATE स्कोर।
 - iii) संबंधित क्षेत्र में अधिक अनुभव के आधार पर।
 - iv) लिखित परीक्षा आयोजित करके।
6. आवेदक को न्यूनतम योग्यता के अलावा अपनी सभी योग्यताएँ और अनुभव से संबंधित जानकारी निर्धारित स्थान पर उल्लिखित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि अनुभव पद के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन आवेदक के पास अनुभव है, तो उसे संबंधित क्षेत्र में भरने की सलाह दी जाती है। केवल उन शैक्षणिक योग्यताओं और अनुभव इत्यादि पर विचार किया जाएगा जिनका जिक्र ऑनलाइन आवेदन में स्पष्ट रूप से किया गया है।

सामान्य जानकारी

1. केवल भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। ऊपर वर्णित रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और संस्थान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर इसे बढ़ाया / घटाया जा सकता है। विकलांग व्यक्तियों को भी अनारक्षित कोटे में उनकी योग्यता के आधार पर चुना जा सकता है।
2. ऑनलाइन भर्ती आवेदन भरने से पहले, उम्मीदवारों को विस्तृत विज्ञापन को एक बार पढ़ लेना चाहिए। कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए तभी आगे बढ़ें जब आप संतुष्ट हैं कि आपके पास पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यक योग्यता है, अन्यथा, प्रस्तुत आवेदन (ओं) को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
3. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक सभी उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी।
4. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन भर्ती आवेदन में अपने सभी विवरण ध्यानपूर्वक भरें और हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ और जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु छूट, आदि के समर्थन में दस्तावेजों की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें, क्योंकि गलत सूचना प्रस्तुत करने पर कम्प्यूटर आधारित लघु सूची बद्ध करने के दौरान आवेदन रद्द किया जा सकता है। संस्थान भर्ती प्रक्रिया किसी भी स्तर पर अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
5. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विशेष पद के लिए केवल एक ही ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करें; तथापि, यदि वह एक पद के लिए एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करता है तो उसे यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतर "आवेदन सं." वाला ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र सभी प्रकार से परिपूर्ण है। जो आवेदक एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करते हैं उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि संस्थान द्वारा केवल उच्चतर "आवेदन सं." वाले ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा।
6. सभी योग्यताएं केवल मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों / बोर्डों / संस्थानों से होनी चाहिए। किसी अन्य देशों से योग्यता रखने वाले आवेदक यूजीसी / एआईयू से समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

7. आयु के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित प्रमाण पत्र / दस्तावेज स्वीकार्य हैं (कोई भी एक):
- जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि।
 - माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (SSLC)।
 - मैट्रिकुलेशन / सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो।
8. समेकित पारिश्रमिक के अलावा, इसकी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत चिकित्सा सुविधा (केवल स्वयं के लिए), निः शुल्क परिवहन (वाहन में सीटों की उपलब्धता) और रियायती कैटीन सुविधाएं उपरोक्त पद के लिए स्वीकार्य हैं।
9. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची आईपीआर वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी और आईपीआर साक्षात्कार के लिए बुलावा भेजने के लिए सभी पत्राचार ईमेल के माध्यम से करेगा और कोई डाक पत्राचार नहीं भेजा जाएगा। जिन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है, उन्हें अलग से पत्राचार नहीं भेजा जाएगा।
10. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल पता भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि सभी संचार संस्थान द्वारा केवल ई-मेल के माध्यम से किए जाएंगे। उम्मीदवारों को भर्ती के नियमित अपडेट के लिए संस्थान की वेबसाइट को देखने की सलाह दी जाती है।
11. परिशिष्ट / विलोपन / शुद्धिपत्र (यदि कोई) केवल संस्थान की वेबसाइट http://www.ipr.res.in/documents/jobs_career.html पर पोस्ट किया जाएगा।
12. चयन की प्रक्रिया में होने वाले किसी भी विवाद/अस्पष्टता के मामले में, संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
13. इस विज्ञापन से होनेवाला कोई भी विवाद केवल गांधीनगर, गुजरात में स्थित न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
14. आईपीआर उपरोक्त पद के लिए किसी भी उम्मीदवार का चयन नहीं करने या कोई भी कारण बताए बिना किसी भी स्तर पर विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
15. जिन उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया, उनके रिकॉर्ड को प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष तक संरक्षित किया जाएगा।
16. आवेदक, आवेदन भरकर स्वयं को नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। गलत दस्तावेज या किसी भी प्रकार के अनुयाचन या किसी भी स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया को प्रभावित करने से ना केवल आवेदन अस्वीकार किया जाएगा बल्कि उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

आवेदन कैसे करें

इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे संस्थान की वेबसाइट

http://www.ipr.res.in/documents/jobs_career.html पर **01 /03/2021 (5.30 बजे तक)** ऑनलाइन आवेदन करें।

ऑनलाइन आवेदन भरते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने आवश्यक हैं, ऐसा न करने के स्थिति में उम्मीदवार के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा और संस्थान इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

1. एक हाल का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ।
2. समर्थन के एवज में दस्तावेजों की प्रतियां:
 - i) उम्र का प्रमाण
 - ii) शैक्षिक मार्क शीट, डिग्री
 - iii) अनुभव प्रमाण पत्र।
 - iv) निर्धारित प्रारूप में जाति/समुदाय/वर्ग का प्रमाण पत्र
 - v) कोई अन्य संबंधित प्रमाणपत्र आदि

कृपया ध्यान दें कि आवेदन और सहायक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कृपया recruitment@ipr.res.in पर संपर्क करें।

संस्थान एक ऐसा कार्यबल रखने का प्रयास करता है जो लिंग संतुलन को दर्शाता है एवं महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।